



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 122) पटना, वृहस्पतिवार, 24 मार्च 2022

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2022

सं०16/स्था०-01-24/2015-1202—विभागीय आदेश ज्ञापांक-1120, दिनांक-18.09.2019 द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यरत भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू-अर्जन कार्यालयों को बन्द करते हुए दिनांक-01.10.2019 के प्रभाव से बंद किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया था। इसके द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भू-अर्जन कार्य हेतु नई अधियाचना अधियाची पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित जिला के जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपने व भू-अर्जन संबंधित लंबित मामलों से संबंधित अभिलेख यथास्थिति के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपते हुए संबंधित अधियाची पदाधिकारी को संसूचित करने संबंधी निदेश निर्गत है। बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत लंबित एवं नया भू-अर्जन कार्य अधियाची पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के प्रावधानों के अनुसार संपादित कराये जाने का निर्णय संसूचित है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भू-अर्जन से संबंधित लंबित योजनाओं की सूची एवं मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्रवार (सिंचाई एवं बाढ़) योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि भू-अर्जन के अधिक मामले लंबित हैं। भू-अर्जन की समस्याओं के कारण लंबित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रक्षेत्रवार भू-अर्जन के कार्यों का अनुश्रवण कार्य निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र०सं०	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	संबंधित जिला	पदाधिकारी का नाम
1.	सिंचाई प्रक्षेत्र, डिहरी	कैमूर एवं रोहतास	श्री अफजालुर रहमान, संयुक्त सचिव
	सिंचाई प्रक्षेत्र, गया	औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद एवं पटना	
	बाढ़ प्रक्षेत्र, कटिहार	किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं भागलपुर	
2.	सिंचाई प्रक्षेत्र, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी	श्री संजीव कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव
	सिंचाई प्रक्षेत्र, मोतिहारी	मोतिहारी एवं सीतामढ़ी	
3.	सिंचाई प्रक्षेत्र, नालन्दा, बिहारशरीफ	जहानाबाद, नालन्दा, पटना एवं शेखपुरा	श्री राशिद कलीम अंसारी, उप सचिव
	सिंचाई प्रक्षेत्र, भागलपुर	भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई	
	बाढ़ प्रक्षेत्र, पटना	पटना, लखीसराय, बक्सर	
4.	बाढ़ प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर	सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं शिवहर	श्री देवनारायण पाण्डेय, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
5.	बाढ़ प्रक्षेत्र, समस्तीपुर	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं खगड़िया	श्री अरविन्द मोहन ठाकुर संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

उक्त पदाधिकारी भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, मुख्यालय स्तर पर संबंधित योजना की मॉनिटरिंग कर रहे कार्यपालक अभियंता भी उक्त कार्यों का शीघ्र मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० अफजालुर रहमान,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 122-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>